

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 जनवरी 2023

### प्रश्न -1

निम्नलिखित में से किसे SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML)का MD और CEO नियुक्त किया गया है?

- A) शमशेर सिंह
- B) आर.एस. श्रीनिवास जैन
- C) डी.पी. सिंह
- D) अपर्णा निरगुडे

**सही उत्तर: A**

SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि उसने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सिंह , जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उप प्रबंध निदेशक थे , ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता के लिए अपने प्रत्यावर्तन के बाद विनय एम . टॉस से कार्यभार संभाला है।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किसने 2022IWF विश्व चैंपियनशिप में 49किलोग्राम महिला वर्ग के तहत रजत पदक जीता?

- A) मीराबाई चानू
- B) पूनम यादव
- C) कुंजारानी देवी
- D) हरजिंदर कौर

**सही उत्तर: A**

ओलंपिक रजत पदक विजेता मिराबाई चानू ने कोलम्बिया के बोगोटा में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में कलाई की चोट को मात देकर रजत पदक जीता। मीराबाई ने स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 113 किग्रा उठाकर कुल 200 किग्रा वजन उठाया और विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक जीता।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 जनवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसने "विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022" जीता।

- A) गिरीश पटेल
- B) गोल्डी बहल
- C) थलप्पिल प्रदीप
- D) उषा प्रकाश

**सही उत्तर: C**

भारतीय वैज्ञानिक, प्रो. थलप्पिल प्रदीप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के तकनीक के लिए हनोई में 20 दिसंबर 2022 को विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज प्राप्त किया।

### प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसे द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज ( TWAS) की UNESCOकी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था?

- A) सुरेश भार्गव
- B) शकील अहमद
- C) के.एस. रंगप्पा
- D) अनुराधा दुबे

**सही उत्तर: C**

मैसूर स्थित वैज्ञानिक के.एस. रंगप्पा को UNESCOकी एक कार्यक्रम इकाई, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज ( TWAS) की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रंगप्पा, जो मैसूर विश्वविद्यालय (UoM) और कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति भी थे, केमिकल बायोलॉजी-ड्रग डिस्कवरी में विशेषज्ञ हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 जनवरी 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया?

- A) नारायणस्वामी बालकृष्णन
- B) नवीन अविनाशचंद्र पुरी
- C) पी.एन. वासुदेवन
- D) रमेश रंगन

**सही उत्तर: C**

2022 के शुरुवात में अपने पद से हटने की घोषणा करने के बाद , इक्विटास के संस्थापक पी.एन. वासुदेवन ने कहा कि उन्होंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बने रहने का फैसला किया है।

### प्रश्न-6

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने निम्नलिखित में से किसे प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया है?

- A) अमित मेहता
- B) रिचर्ड वर्मा
- C) नाओमी राव
- D) वनिता गुप्ता

**सही उत्तर: B**

भारतीय-अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने विदेश विभाग में एक शीर्ष राजनयिक पद के लिए नामित किया है। वर्मा, 54, जिन्होंने 16 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2017 तक भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया, वर्तमान में मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 जनवरी 2023

### प्रश्न-7

इंग्लैंड की 1966 फुटबॉल विश्व विजेता टीम के सदस्य, इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी \_\_\_\_\_ का हाल ही में निधन हो गया है।

- A) बॉबी मूर
- B) जॉर्ज कोहेन
- C) गॉर्डन बैंक
- D) रे विल्सन

**सही उत्तर: B**

जॉर्ज कोहेन का हाल ही में निधन हो गया है। वह 83 वर्ष के थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1966 विश्व कप जीतने के रूप में दर्ज की गई थी जब इंग्लैंड ने वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में पश्चिम जर्मनी को हराया था।

### प्रश्न-8

भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया?

- A) 24 दिसंबर
- B) 23 दिसंबर
- C) 22 दिसंबर
- D) 21 दिसंबर

**सही उत्तर: A**

उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 जनवरी 2023

### प्रश्न-9

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है?

- A) अमरावती
- B) पुणे
- C) उडुपी
- D) वाराणसी

**सही उत्तर: C**

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक के उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार भारत को खेल सॉफ्ट पावर में बदलने का प्रयास कर रही है।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुआ है?

- A) बांग्लादेश
- B) चीन
- C) नेपाल
- D) श्रीलंका

**सही उत्तर: A**

दो तरफा वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत और बांग्लादेश जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष टीपू मुंशी के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।